



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1936 (श0)
(सं0 पटना 184) पटना, शुक्रवार, 16 जनवरी 2015

सं0 8प/वि-5-131/2013/पं०रा०/9641

पंचायती राज विभाग

संकल्प

8 दिसम्बर 2014

विषय:—त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति।

त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मांग के आलोक में पदासीन रहते हुए आपराधिक या हिंसात्मक घटनाओं एवं दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:—

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं ग्राम कचहरी

सदस्य (पंच) को पदासीन के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना, दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में 1,00,000.00 रु0 (एक लाख रु0) अनुग्रह अनुदान की राशि मृतक के आश्रित को दिया जायेगा।

2. उपरोक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।

3. यह दिनांक 09.12.2014 से प्रवृत्त होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 184-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>